



TGL/2020-21/SEC-112

Date: 17.01.2021

To,
The Manager
Department of Corporate Services-Listing
BSE Limited
16th floor, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Sub: Notice of the Board Meeting published in newspaper
Ref: Triveni Glass Limited (Scrip Code 502281)

Dear Sir,

This is in continuation to the letter regarding intimation of Meeting of Board of Directors of the Company scheduled to be held on 25th January 2021. The same is published in two Newspapers i.e The Financial Express &AAJ on 17th January 2021. The cutting of the same is enclosed herewith.

Kindly find the published Notice & update the same in your record.

Thanks & Regards

For Triveni Glass Limited

Astha Mohan
Astha Mohan
Company Secretary

Encl.: As per above

Regd. Off. :

1, Kanpur Road, Allahabad - 211 001, India

Phone : +91-532-2407325

Fax : +91-532-2407450

E-mail : akd@triveniglassltd.com

Website : www.triveniglassltd.com

CIN No. : L26101UP1971PLC003491

IF IT'S GLASS IT'S US

Union Bank of India

REGIONAL OFFICE, Delhi (Central),
Fazl Road, Jhandewalan, New Delhi-110005
E-mail : cb821leg@unionbankofindia.com

CORRIGENDUM

This is in reference to the advertisement published in this newspaper on 01-01-2021 for E-Auction Sale Notice in which the property in A/c Mr Vipin Kumar and Mr Durgesh Kumar (Prop. No. 2) of Pashpanjali Enclave Branch & A/c Sh. Bhagesh Dutt Mishra (at Property No. 18) of Chandni Chowk Branch (0205) that the proposed auction of the said accounts properties on 18-01-2021 has been postponed till further notice by the Bank. Rest will remain unchanged.
Authorised Officer, Union Bank of India

THE sukhiit STARCH & CHEMICALS LIMITED

Regd. Office :Saras Road, Phagwara, (Distt. Kapurthala) Punjab-144 401.
E-mail : sukhiit@sukhiitgroup.com
Website : www.sukhiitgroup.com
Ph. 01824-468800 Fax: 01824-261669, CIN:L15321PB1944PLC001925

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 29th day of January, 2021 to, inter-alia, consider the Unaudited Financial Results (Provisional) for the quarter ending 31/12/2020.

Triveni Glass Ltd

1, Kanpur Road, Allahabad-211001
CIN: L26101UP1971PLC003491;
Website: www.triveniglasltd.com
Email: akd@triveniglasltd.com;
Tel: 0532-2407325

NOTICE

This is to inform you that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held at the Registered Office of the Company at 1, Kanpur Road, Allahabad-211001, Uttar Pradesh on 11.01.2021, at 11.30 AM, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020.

BRAND REALTY SERVICES LIMITED

Regd. Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 Landline: (91)-11-22755819
Corp. Office: F6/18, Plot No. D-6, Wave Silver Tower, Sector-18, Noida-201301 (UP)
CIN: L74899DL1995PLC064237
Web: http://www.brandrealty.in
E-Mail: kamal@brandrealty.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 21st January, 2021 at 3:00 PM at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi - 110091, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the third quarter ended 31st December, 2020. The said notice may be accessed on the Company's website www.brandrealty.in and of the Stock Exchange website www.bseindia.com

BRAND REALTY SERVICES LIMITED

Regd. Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 Landline: (91)-11-22755819
Corp. Office: F6/18, Plot No. D-6, Wave Silver Tower, Sector-18, Noida-201301 (UP)
CIN: L74899DL1995PLC064237
Web: http://www.brandrealty.in
E-Mail: kamal@brandrealty.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 21st January, 2021 at 3:00 PM at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi - 110091, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the third quarter ended 31st December, 2020. The said notice may be accessed on the Company's website www.brandrealty.in and of the Stock Exchange website www.bseindia.com

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

CIRCLE SASTRA OFFICE: ALIGARH
Sai Vihar Opposite Madan Palace Village Talaspur Kalan, Ramghat Road, Aligarh, 202001, Email:cs8183@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice(s) on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of receipt of the said notice(s). The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 14th day of January of the year 2021.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

S. No.	Name of the Branch	Name of the Account	Description of the property mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession notice affixed	Amount Outstanding as on the date of possession notice.
1.	Khair Aligarh	M/s Shri Ram Traders (Borrower) Prop. Sh Vipin Kumar S/o Devki Nandan Address: C-34 naveen Mandi Sthal Khair	1) Equitable Mortgage of All the part and parcel of Plot Situated at bahadurganj kasba khair Tainti Gaon Road ward No 23, Post Pargana & Tehsil Khair Dist. Aligarh ad measuring 105.492 sqmt. In the name of Smt Mamta Devi W/o Rajesh Kumar Vide Registered Deed Dated 14.07.97 Bahi No. 1 Jild no. 1176 Serial No. 1424 at Pages 360/361 in the office of SubRegistra Khair, East - Plot of Uma Shankar and Shiv Shankar Rohatgi, West - khair Tainti Gaon Road, North - house of Om Prakash, South - house of Karan Singh S/o jahariya 2) Equitable Mortgage of All the part and parcel of Plot Situated at bahadurganj kasba khair ward No 23, Post Pargana & Tehsil Khair Dist. Aligarh ad measuring 44.177 sqmt. In the name of Shri Rajesh Kumar and Shri Vipin Kumar Vide Registered Deed Dated 14.07.97 Bahi No. 1 Jild no. 1176 Serial No. 1423 at Pages 358/359 in the office of SubRegistra Khair, East - Plot of Uma Shankar and Shiv Shankar Rohatgi, West - khair Tainti Gaon Road, North - house of Om Prakash, South - house of Karan Singh S/o jahariya 3) Equitable Mortgage of All the part and parcel of Plot Situated at bahadurganj kasba khair Tainti Gaon Road ward No 23, Post Pargana & Tehsil Khair Dist. Aligarh ad measuring 17.192 sqmt. In the name of Shri Vipin Kumar Vide Registered Deed Dated 19.02.2007 Bahi No. 1 Jild no. 2423 Serial No. 1206 at Pages 373-390 in the office of SubRegistra Khair, East - Plot of Uma Shankar and Shiv Shankar Rohatgi, West - khair Tainti Gaon Road, North - house of Om Prakash, South - house of Karan Singh S/o jahariya	05.10.2020	14.01.2021	Rs. 19,12,711/- (Rupees Nineteen Lakhs Twelve thousand Seven Hundred Nineteen and interest and legal expenses
2.	Khair Aligarh	M/s Shri Govind Communication Prop. Rakesh Sharma S/o Harishankar Sharma Office Address: Collocoranj Palwar Aligarh road Khair, Aligarh	Equitable Mortgage of all part and parcel of Plot situated at Khasra No. 50 Gram Lohagarh Pargana and Tehsil Khair, Dist. Aligarh in the name of Sh Hari Shankar Sharma S/o Charan Singh admeasuring 401.280sqmt. Vide Registered Deed Dated 07.10.1994 Bahi No. 1 Jild no 1091 Serial No 3359 at Pages 337-3359. In the office of SubRegistra Khair Aligarh, Bounded as under: East -Open Land Harprasad, West - Open Land Harprasad, North - Khet of Bhagwati Prasad, South - Aligarh Tappal Road	05.10.2020	14.01.2021	Rs. 15,02,400.16/- (Rupees Fifteen Lakh two Thousand Four Hundred and sixteen paise only) + interest and legal expenses
3.	Tappal, Aligarh	M/s Karan Deying Mill through Prop. Anil Kumar Office Address: Village 59 Post Jajur Tehsil Balhagarh, Faridabad, Haryana, 121004 & 328 Moh. Daroket VPO Tappal Tehsil Khair, Aligarh 202165	1) Equitable Mortgage of all part and parcel of plot situated at Gata No.3699, mauja Tappal Tehsil Khair District Aligarh having area 83.61 sqmt in the name of Mundra Devi w/o Hori Lal Having Boundries as under: North: House Pappu, South: Vacant Plot, East: Raasta West: Plot of Nannu 2) Equitable Mortgage of all part and parcel of plot situated at gram and pargana Tappal Tehsil Khair District Aligarh having area 62 sqmt in the name of Shri Omkar W/o Shri Indrajit Sakin, Having Boundries as under: North: House Vijay S/o Khajan, South: Raasta, East: House of Chandra Mohan West: Raasta Behnawa, 3) Equitable Mortgage of all part and parcel of plot situated at Gata No. 3413, mauja Tappal Tehsil Khair District Aligarh having area 83.613 sqmt in the name of Salsih Chand S/o Lakhmichand, Having Boundries as under: North: Plot Sunder Singh, South: Plot Lakhmichand, East: Raasta West: Khet Vidhichand	19.10.2020	14.01.2021	Rs. 23,59,905.21/- (Rupees Twenty three lakh fifty nine thousand nine hundred and twenty one paise only) + interest and legal expenses

DATE: 15.01.2021, PLACE: ALIGARH AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

SML ISUZU LIMITED

CIN : L50101PB1983PLC005516
Regd. Office: Village Ason, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr), Punjab-144533. Phone : 01881-270255, Fax : 01881-270223
Email Id : investors@smlisuzu.com Website address : www.smlisuzu.com

NOTICE

Notice under Section 201 of the Companies Act, 2013 is hereby given that an application under Section 196 read with Schedule V and other applicable provisions, if any, is being made to the Central Government seeking its approval for the re-appointment of Mr. Tadanoo Yamamoto (DIN 08291307) as Whole-time Director designated as Director-Quality Assurance, approved by Board of Directors of the Company at its meeting held on 6th November, 2020 subject to approval of Shareholders in the General Meeting.

SML ISUZU LIMITED

(Formerly known as Swaraj Mazda Limited)

Regd. Office : Village Ason, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr), Punjab-144533. Phone : 01881-270255, Fax: 01881-270223. CIN : L50101PB1983PLC005516. Email : investors@smlisuzu.com Website address : www.smlisuzu.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 5th February, 2021 (Friday) to consider and approve the unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended on 31st December, 2020.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **KARAN PROCESSORS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (CIN: U18101HR2010PTC040683)**

Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, a Public Announcement is hereby made that the List of Stakeholders of Karan Processors Private Limited - in Liquidation ('Corporate Debtor') has been prepared by the Liquidator and which has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench electronically on 15th January, 2021.

As there is no functional website of the Company ('Corporate Debtor'), hence, the List of Stakeholders showing complete details of amount of Claims Admitted by the Liquidator, extent upto which claims are secured/unsecured, will be available for inspection at the office of the Liquidator at F-627, Lawyers Chambers, Karkardooma Court Complex, Delhi - 110032.

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench, can be made only after obtaining approval of the Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench.

Amarnath
Liquidator for Karan Processors Private Limited
Reg. No.: IBB/IPA-001/PP-P01639/2019-2020/12530
Address: F-627, Lawyers Chambers, Karkardooma Court Complex, Delhi - 110032

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

CIRCLE SASTRA CENTRE: EAST DELHI, POCKET-E, MAYUR VIHAR PHASE-II, DELHI-110091

POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank, Circle SASTRA CENTRE, East Delhi, CSC First Floor, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 29.08.2020 calling upon the M/s Apex Aim Pvt. Ltd (Credit facility sanctioned by erstwhile Oriental Bank of Commerce now amalgamated with Punjab National Bank as per Government of India Notification) Office at 1st Floor, 45 Okhla Industrial Area, Phase III, New Delhi-110020 Also at: 52-B, Ground Floor, Okhla Phase III, New Delhi-110020. 1) Sh. Gaurav Tandon S/o Sh. Baldev Narain Tandon (Directors cum Guarantors) residing at B-251, Sector-51, Kendriya Vihar, Gautam Budh Nagar, Noida U.P.-201301 Also at: 203 Tower C, Prateek Styeme, Sector-45, Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 2) Sh. Vikas Bhambri S/o Sh. Sardari Lal Bhambri (Directors cum Guarantors) residing at B-301, DPS, Sahkari Samiti, A-100/02, Sector-51, Noida U.P.201301 Also at: D-010, Silver Oak, Civil Services Officers Welfare Society, Plot-1, Pocket-7, Greater Noida, U.P.201301 3) Sh. Amit Premnath Kapani S/o Sh. Premnath Amritlal Kapani (Directors cum Guarantors) residing at 31/2013, Sagar Apartments, Lokhandwala, Andheri (W), Mumbai-400058 4) Sh. Naveen Pal (Directors cum Guarantors) C/o M/s Apex Aim Private Ltd, 52-B, Ground Floor, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 5) Smt. Jyoti Premnath Kapani W/o Sh. Premnath Kapani (Directors cum Guarantors) residing at B-206/31, Sagar Apartments, Apna Ghar Unit-2, Lokhandwala, Andheri (W), Mumbai-400058 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,83,14,418.53 (Rs. One Crore Eighty Three Lakh Fourteen Thousand Four Hundred Eighteen & Paise Fifty Three Only) as on 28.08.2020 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 14th day of January of the year 2021.

The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank Circle SASTRA CENTRE, East Delhi, CSC First Floor, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi for an amount of Rs.1,83,14,418.53 (Rs. One Crore Eighty Three Lakh Fourteen Thousand Four Hundred Eighteen & Paise Fifty Three Only) as on 28.08.2020 with further interest, expenses and other charges etc. thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Residential Apartment No.38-B (First Floor), Green View Apartments, Block A, Sector-99, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. (First Charge) measuring 1723 sq. ft. standing in the name of Sh. Gaurav Tandon, Bounded as: North - Flat No.38-C, South - Stair, East - Other's Property, West - Colony Road

Date: 14-01-2021, Place : Noida (U.P.) Authorized Officer, Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

B/o Sector 15, Faridabad (111100)

(Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice on below mentioned dates, calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on below mentioned dates.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and the dealing with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount mentioned in the notice.

The borrower's/guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Name of Account (Borrowers)	Demand Notice Date Possession Notice Amount Outstanding	Description of the Immovable Property
M/s Orion Enterprises (A/c No. 1111008700001367 and 1111001800000645)	14-08-2020 13-01-2021	EM: 1.Charge by way of hypothecation of all current assets of the firm including, but not limited to, stocks, SIP, Book Debts, consumable spares etc. 2. Machinery 3. H. No. 1155, Sector 14, Faridabad 4. H. No. 1156, Sector 14, Faridabad

Date : 13-01-2021, Place : Faridabad Authorized Officer, Punjab National Bank

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

BRANCH OFFICE : SAFDARJUNG ENCLAVE, DELHI

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable property hypothecated/pledged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 15.02.2021, for recovery of below mentioned dues to the Bank. The Reserve price and EMD is displayed against the details of respective movable asset as under:-

Branch	Name of the borrower and Guarantors	Description of the asset & ownership	Possession Type	Date of Demand notice U/s 13(2) O/s Dues	Reserve price EMD Minimum Bid Increase Amount	Date and time of E-auction Account no. and IFSC code	Authorized officer and contact number
Safdarjung Enclave	Gourmet Foods and Hospitality Prop Mr Ghanshyam Das Address: 179/9, Kishangarh, Vasant Kunj Delhi-110020	Mahindra XUV 500 FWD W8 Black (Diesel) in the name of Gourmet Foods and Hospitality Registration No. DL12CA6225 (Car/Taxi) Reg Dt. 06/09/2014 Hypothecation : Bank of Baroda Vehicle Make and Model: Mahindra XUV 500 FWD W8 Colour-Black Engine no.:HJE4G16691 Chassis No.:MA1Y2THJUE6H15231 Body- RIGID(PASSENGER CAR) Manufacturing Date:08/2014, Vehicle Class-LMV, Fuel Used- DIESEL, Validity of CNG Cylinders: Nov 20 Seating Capacity:7	Physical	31/10/2019 Rs.5,98,058 plus further interest, Other charges and Expenses thereon w.e.f. 29/06/2019	Rs.3,51,000/- Rs.35,100/- Rs.5,000/-	15.02.2021 from 01.00 PM to 05.00 PM A/c no. 09150015181219 Account Name: Intermediary Account A/c IFSC -BARBOSAFAR (5TH Character is to be read as 'zero')	Mr.Sunil Verma (Chief Manager) Mobile No. 7888842677

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and <https://ibapi.in>, also, prospective bidders may contact the AUTHORIZED OFFICER on Tele No. / Mobile as mentioned in above table

DATE: 15.01.2021 PLACE: NEW DELHI AUTHORIZED OFFICER, BANK OF BARODA

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

BANK OF BARODA
Recovery Department, East Delhi Region, Plot No. 19 & 31, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6(2) & 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

Sr. No.	Name & address of Borrower/s / Guarantor/s	Description of the immovable properties with known encumbrances, if any	Total Dues	Reserve Price (Rs.) EMD		Date and time of E-auction	Status of Possession (Constructive /Physical)	Property Inspection date & Time.	Branch name and Contact person number
				Bid Increase Amount					
1	Mr. Ganesh Chandra S/o Mr. Musram, R/o- 4/1, PCC-1, Kama Nehru Nagar, Ghaziabad, UP-201001	Residential Flat No. SF/2 LIG 2nd floor, Plot no.-MF17, Khasra No.-411 Village-Raispur, Pargana -Dasna, Ghaziabad, UP-201001(m block sec-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad-102002, Area admeasuring 450.00 Sq. Feet	Rs. 9,51,201.62 (Rs Nine Lakh Fifty one Thousand Two Hundred One and Sixty Two Paise only) and interest and charged thereon from 28.02.2018	₹ 9,29,475.00 ₹ 92,950.00 ₹ 10,000/-		05-02-2021 from 11.00 P.M. to 04.00 P.M.	Physical	02-02-2021 from 10.00 AM to 02.00 PM	Gandhi Nagar Branch, Mr. Mirnal Prasad Ranjan, Mob-7683054724

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and <https://ibapi.in> also, prospective bidders may contact the authorized officer as above mentioned.

Date : 16-01-2021, Place : New Delhi Authorized Officer, Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

RO SARB, LUCKNOW
1st Floor, V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph.: 0522-6677636/6677636/6677681, E-Mail: sarluc@bankofbaroda.co.in

Sale notice for immovable properties "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6(2) & 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso of Rule 6(2) & Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Guarantor/s/Secured Assets/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:

Date of Auction: 08.02.2021 **Last Date of EMD Submission: 06.02.2021 upto 4.00 PM**

S. No.	Name & Address of the borrower/Guarantors	Description of the Immovable Property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & Time of E- Auction	Reserve Price/ EMO/ Bid Increase Amount	Status of Possession (Symbolic/ Physical)	Property Inspection date & Time
1.	Borrower: M/s Manoj Enterprises Add.: Shop No. 129 & 142, Ansal City Centre, China Bazar, Hazratganj, Lucknow. Prop. Mr. Manoj Kumar Sharma S/o Late Hari Prasad Sharma R/o A-22/47, Sector-22, Indiranagar, Lucknow.	(i) EM of Shop created vide deposit of sale deed no. 905 registered on date 20.01.2016 vahi no. 1 Khand 17793 pages 143 to 178 at Shop No. 129 (LGF) Ansal City Centre, China Bazar Ward, Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow. Area: 3.438 sq.mtr., Bounded by: East: Shop No. 138 (LGF); West: Corridor; North: Shop No. 130 (LGF); South: Shop No. 128 (LGF). (ii) EM of Shop created vide deposit of sale deed no. 903 registered on date 20.01.2016 vahi no. 1 Khand 17793 pages 71 to 106 at Shop No. 142 LGF Ansal City Centre, China Bazar Ward, Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow. Area: 3.438 sq.mtr., Bounded by: East: Corridor; West: Shop No. 125 (LGF); North: Shop No. 141 (LGF); South: Corridor.	Rs. 15,25,327.75 + interest and other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)	08.02.2021 02:00 PM to 06:00 PM	Rs. 2,09,000/- (RP) Rs. 20,900/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount) Rs. 2,32,000/- (RP) Rs. 23,200/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Constructive	04.02.2021 between 10:00 AM to 4:00 PM
2.	Borrower: M/s Bharat Electric Works, Prop. Mohd. Ayub S/o Mr. Nadir Ali, Add: Shop No. N-3, New Ajanta Market, Paper Mill Colony, Nishatganj, Lucknow 226006 Guarantor: Mrs. Jamila Khatoun W/o Mohd. Ayub, R/o Shop No. N-3 New Ajanta Market, Paper Mill Colony, Nishatganj, Lucknow - 226006	EM of residential cum commercial property no. N-3, 1st floor, Paper Mill Colony Yojna, Lucknow, Area: 72.355 Sq. mt., Owner Mohd. Ayub S/o Mr. Nadir Ali & Mrs. Jamila Khatoun W/o Mr. Mohd. Ayub, Boundary: East: Land belonging to Railway, West: House No. N-21. North: Lane, South: Lane.	Rs. 39,39,178.33 + interest and other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)	08.02.2021 02:00 PM to 06:00 PM	Rs. 38,47,000/- (RP) Rs. 3,84,700/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Constructive	04.02.2021 between 10:00 AM to 4:00 PM
3.	Borrower: M/s Riser Pharma. Add: LGF-10, Golden Plaza, Near Ikka Stand Daliganj, Lucknow. Prop. Mr. Surendra Kumar Mishra S/o Mr. Banwari Lal, R/o H.No. 563/161, Barauliya, Mankameshwar Mandir, Daliganj, Lucknow-226020. Guarantors: (1) Mr. Manoj Kumar Rai S/o Mr. Prem Nath Rai, R/o 538/K/394, Triveni Nagar II, Sitapur Road, Lucknow-226020. (2) Mr. Banwari Lal Mishra S/o Mr. Bacchu Lal Mishra, R/o 503/161, Barauliya, Near Mankameshwar Mandir, Daliganj, Lucknow.	Equitable Mortgage of Shop No. LGF-10 measuring 13.039 Sq. Mtr. Constructed on premises no. 488/134-134/1-8, Sitapur Branch Road, Daliganj, Lucknow. Owner: Mr. Surendra Kumar Mishra. Boundary:- East: Space, West: Nala, North: LGF-11, South: LGF-9	Rs. 7,25,804.00 + interest and other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)	08.02.2021 02:00 PM to 06:00 PM	Rs. 7,75,000/- (EMD) Rs. 77,500/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Constructive	04.02.2021 between 10:00 AM to 4:00 PM
4.	Borrower: Mr Tanveer Haider S/o Late Mirza Mohd. Ali & Ms. Meher Darkhsha (as legal heir of late Anwar Jahan Zaidi) D/o Late Anwar Jahan Zaidi Both R/o 450/32 Kha-1, Mubarak Ka Hata, Muftiganj, Lucknow Guarantor-(1) Mr. Ilham Hussain S/o Mr. Mirza Imtiaz Hussain R/o House No. 446/126/1, Musahib Ganj, Lucknow. (2) Mr Sayed Anwarul Hasan Zaidi S/o Mr. Syed Badrul Hussain Zaidi R/o House No. 395/1 Ka, Kashmiri Mohalla Road, Lucknow	Equitable Mortgage of immovable property at House No. 450/32 Kha-1, Mubarak Ka Hata, Muftiganj, Lucknow (Land area 98.88 Sq.Mtr.) Owner: Late Anwar Jahan Zaidi. Bounded by: East: Wall of house of Mr. Jafar Hussain, West : Road 8 feet wide, North : Road 8 feet wide, South : Wall of house of Mr Jafar Hussain	Rs. 3,80,037.12 + interest and other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)	08.02.2021 02:00 PM to 06:00 PM	Rs. 12,80,000/- (RP) Rs. 1,28,000/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Constructive	04.02.2021 between 10:00 AM to 4:00 PM
5.	Borrower: (1) Mrs. Sangita Pushkar W/o Late Mr. Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr. Ramai Lal Pushkar), E-1/341, Sector-H, Jankipuram, Lucknow-226021. (2) Mr. Umang Pushkar S/o Late Mr. Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr. Ramai Lal Pushkar) through Mrs. Sangita Pushkar (Mother and Natural Guardian), E-1/341, Sector-H, Jankipuram, Lucknow-226021. (3) Mrs. Princy Pushkar D/o Late Mr. Ramai Lal Pushkar (Legal Heir of Late Mr. Ramai Lal Pushkar) through Mrs. Sangita Pushkar (Mother and Natural Guardian), E-1/341, Sector-H, Jankipuram, Lucknow-226021.	Equitable Mortgage of Property consisting House No. EWS-1/341 situated at Sector-H, Jankipuram, Lucknow registered within sub-Distt. Lucknow and Distt. Lucknow. Area: 30.00 Sq.Mtrs., Owner: Late Ramai Lal Pushkar (Demise on 06.02.2019). Boundary (as per sale deed) : East: 6 Mtr wide road, West: House No. 1/354, North: House No. 1/342, South: House No. 1/340	Rs. 28,18,711.22 + interest and other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)	08.02.2021 02:00 PM to 06:00 PM	Rs. 17,80,000/- (RP) Rs. 1,78,000/- (EMD) Rs. 10,000/- (Bid Increase Amount)	Constructive	04.02.2021 between 10:00 AM to 4:00 PM

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda secured website i.e. <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> & <https://ibapi.in>. Also, prospective bidders may contact the authorised officer on Mobile No. 7656008656, 7656008653.

Date : 17.01.2021 Place : Lucknow Authorized Officer, Bank of Baroda

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHANDIGARH CP (CAA) No. 20/Chd/Chd/2020

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013, SECTION 230 to 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN Steel Strips Limited, having its registered office at Village Harkishanpura, Bhawanigarh, Tehsil Sangrur, Punjab 148026 ...Transferor/Applicant Company No. 1 WITH SAB Industries Limited, having its registered office at SCO 49-50, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh ...Transferee/Applicant Company No. 2

NOTICE OF HEARING OF PETITION

A petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and rules made there under, for sanctioning of the scheme of Amalgamation between Steel Strips Limited (Transferor Company) with SAB Industries Limited (

